

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 549] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 1978/अग्रहायण 23, 1900
No. 549] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 14, 1978/AGRAHAYANA 23, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1978

का. आ. 710(अ.).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें उस अभ्यर्थी का नाम है जो राज्य सभा में रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उपनिर्वाचन।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप नियम 1 के खण्ड के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों

के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि श्री लहाने, मोतीराम उदयभानजी, अलसी प्लाट, अकोला उस सदन में श्री देवराव शिवराम पाटिल की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : काउन्सिल हॉल, नागपुर,

तारीख : 11 दिसम्बर, 1978

ह/-

बी. जी. देव, अपर सचिव,

महाराष्ट्र विधान सभा सचिवालय और रिटर्निंग आफिसर।"

[सं. एफ. 13(4)/78-वि. 2]

ई. वेंकटेश्वरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 1978

S. O. 710(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill a vacancy in the Council of States is published for general information :—

DECLARATION

**BYE-ELECTION TO THE COUNCIL OF STATES BY THE ELECTED
MEMBERS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF
MAHARASHTRA**

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Lahane, Motiram Udaybhanji,
Alasi Plot,
Akola.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Deorao Shivram Patil.

Place : Council Hall,
Nagpur,

Sd./-

Date : 11th December, 1978.

B. G. DEO, Additional Secretary,
Maharashtra Legislature Secretariat and
Returning Officer."

[No. F. 13(4)/78-Leg. II]

E. VENKATESWARAN, Joint Secy.